



Social Security Scotland  
Tèarainteachd Shòisealta Alba

# स्कॉटिश चाइल्ड पेमेन्ट

## स्कॉटिश चाइल्ड पेमेन्ट क्या है?

यह परिवारों के लिए निश्चित लाभों या टैक्स क्रेडिट का एक नया भुगतान है जिससे उनको बच्चे का पालन-पोषण करने का खर्चा उठाने में मदद मिलती है। इसके तहत, छह वर्ष से छोटे प्रत्येक बच्चे के लिए, प्रत्येक चार सप्ताह पर £40 का भुगतान किया जाता है।

## इसे कौन पा सकता है?

लोग स्कॉटिश चाइल्ड पेमेन्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे वे काम करते हों या नहीं।

यदि कोई व्यक्ति या उसका जीवनसाथी, छह वर्ष से छोटे किसी बच्चे के माता-पिता या पूर्णकालिक देखभालकर्ता हैं और अगर वे टैक्स क्रेडिट या निश्चित लाभ प्राप्त करते हैं, तो वे इसके लिए पात्र हो सकते हैं\*।

\*चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, इन्कम सपोर्ट, पेंशन क्रेडिट, वर्किंग टैक्स क्रेडिट, यूनिवर्सल क्रेडिट, इन्कम-बेस्ड जॉबसीकर्स अलाउंस (JSA), इन्कम-रिलेटेड एम्प्लायमेन्ट एंड सपोर्ट अलाउंस (ESA)।

## स्कॉटिश चाइल्ड पेमेन्ट के लिए प्रति परिवार कितने बच्चों तक की पात्रता हो सकती है?

पात्र परिवार में छह वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए भुगतान मिलेगा।

## बच्चे की आयु छह वर्ष की हो जाने पर क्या होता है?

बच्चे की आयु छह वर्ष की हो जाने पर भुगतान बंद हो जाएगा। हालांकि DWP से प्राप्त किए जाने वाले पात्रता लाभ संबंधी डाटा के विषयाधीन, स्कॉटिश सरकार, 2022 के अंत तक स्कॉटिश चाइल्ड पेमेन्ट का विस्तार 16 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों तक करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जब नया भुगतान पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो आप 16 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

## आप किस तरह आवेदन कर सकते हैं?

हम हमारी फ्रीफोन हेल्पलाइन 0800 182 2222 के माध्यम से, डाक से या [mygov.scot/benefits/scottish-child-payment](https://mygov.scot/benefits/scottish-child-payment) पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करते हैं।

## किस साक्ष्य की आवश्यकता होगी?

हमें इसका साक्ष्य चाहिए होगा कि आवेदनकर्ता व्यक्ति पर छह वर्ष से कम आयु के बच्चे का दायित्व है, प्रायः इसके लिए लाभ दावे पर बच्चे को नामित किया जाता है। यदि एक ही बच्चे के लिए एक से अधिक व्यक्ति आवेदन करते हैं तो भुगतान किसे मिलेगा, यह तय करने के लिए हमारी एक प्रक्रिया है, जिसमें उस व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है जिसके साथ बच्चा अधिकांश समय रहता हो।

नातेदार देखभालकर्ता (किनशिप केयरर) कानूनी आदेश, स्थानीय प्राधिकारी से लिखित अनुबंध या निश्चित परिस्थितियों में स्थानीय प्राधिकारी से समर्थन पत्र के माध्यम से बच्चे हेतु अपना दायित्व प्रमाणित कर सकते हैं।



### **क्या उनके जीवनसाथी की जानकारी आवश्यक होगी?**

हां, अगर वे एक ही घर में रहते हैं और:

- परस्पर विवाहित हैं
- एक दूसरे के सिविल साझेदार हैं
- विवाहित दंपति की तरह साथ रहते हैं।

### **यदि आवेदन करने के बाद किसी की परिस्थितियां बदल जाएं तो क्या होगा?**

किसी समय पर परिस्थितियों में बदलाव होने पर आपको हमें सूचित करना होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे वह सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं जिसके लिए वे हकदार हैं। आपको मिलने वाले लाभों या टैक्स क्रेडिट में परिवर्तन या निवास में परिवर्तन इसमें शामिल हो सकते हैं।

### **लोगों को किस तरह भुगतान किया जाएगा?**

पात्र परिवारों को उनके चुने खाते में भुगतान किया जाएगा। यदि वे अपना चुना खाता बदलना चाहते हों तो वे हमसे संपर्क कर सकते हैं।

### **आप धन का किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं?**

यह आप पर निर्भर है कि अपने परिवार की सहायता के लिए आप इस धनराशि का किस तरह उपयोग करने का निर्णय करते हैं।

### **क्या यह अन्य लाभों को प्रभावित करता है?**

नहीं, यह UK लाभ और टैक्स क्रेडिट मूल्यांकनों में शामिल नहीं किया जाएगा।

### **अन्य भुगतान**

सोशल सिक्योरिटी स्कॉटलैंड, गर्भावस्था और शिशु के लिए भुगतान, आरंभिक शिक्षण भुगतान, स्कूल आयु हेतु भुगतान, तथा सर्वोत्तम शुरुआती भोजन (बेस्ट स्टार्ट फूड्स) भी प्रदान करती है - आप इनके लिए उसी आवेदन पत्र पर आवेदन कर सकते हैं। इन भुगतानों हेतु पात्रता जानने के लिए, [mygov.scot/benefits/best-start](https://mygov.scot/benefits/best-start) पर जाएं।